

AANKHON KA TARA (GUJARATI)

(કિસ્સા ૧)

ફેઝાને સુન્નત કી મ-દની બહારે



આંખોં કા તારા

મઝ 14 મ-દની બહારે



- | | | | |
|-------------------------|----|-----------------------------------|----|
| ❁ સઆદતોં કી મે'રાજ | 6 | ❁ ઈસ્લામી જિન્દગી કી સહનુમા તહરીર | 13 |
| ❁ મુરઝાઈ કવિયાં ખિલ ઉકી | 15 | ❁ તારીકી કે બાદલ છટ ગએ | 20 |
| ❁ આંખેં અરક બરસાતી રહી | 23 | ❁ ગુલશને હયાત કો શાદાબ કર દિયા | 27 |

مكتبة المدينة
(ممبئی)



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مَا تَعَدُّ قَاعُ دُنَا اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَمِعْنَا اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ કિલાબ પઢને કી દુઆ

અજ: શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઇસ્લામી, હઝરત અલ્લામા મૌલાના

અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

દીની કિતાબ યા ઇસ્લામી સબક પઢને સે પહલે ઝૈલ મેં દી હુઈ દુઆ પઢ લીજિયે

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ જે કુછ પઢેંગે યાદ રહેગા. દુઆ યેહ હે :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

તરજમા : ઐ અલ્લાહ ઈઝુજલ્ ! હમ પર ઈલ્મ વ હિક્મત કે દરવાઝે ખોલ દે ઔર હમ પર અપની રહમત નાઝિલ ફરમા ! ઐ અ-ઝમત ઔર બુલુગી વાલે !

(المستطرف ج ١ ص ٤٠٤ دار الفكر بيروت)

નોટ : અવ્વલ આખિર એક એક બાર દુરુદ શરીફ પઢ લીજિયે.

તાલિબે ગમે મદીના

વ બકીઅ

વ મસ્જિદત

28 ર-જબુલ મુરજજબ 1426 હિ



આંખોં કા તારા

યેહ રિસાલા (આંખોં કા તારા)

મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા (દા'વતે ઇસ્લામી) ને ઉર્દૂ ઝબાન મેં પેશ કિયા હે.

મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઇસ્લામી) ને ઈસ રિસાલે કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ કિયા હે ઔર મક-ત-બતુલ મદીના સે શાએઅ કરવાયા હે. ઈસ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી પાએં તો મજલિસે તરાજિમ કો (બ ઝરીઅએ મકતૂબ, ઈ-મેઇલ યા SMS) મુત્તલઅ ફરમા કર સવાબ કમાઈયે.

રાખિતા : મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઇસ્લામી) : મક-ત-બતુલ મદીના

સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ કી મસ્જિદ કે સામને,

તીન દરવાઝા, અહમદઆબાદ ગુજરાત.

MOBILE. 09374031409. E mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઇલ્મિયા

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

दुइद शरीफ़ की इजीलत

शैभे तरीकत, अभीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते
ईस्लामी हजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाव मुहम्मद
ईल्यूस अतार कादिरि २-उवी जियाई अल्लैहै दाम्त बरकतुहूँ अल्लैहै
सुन्नत जिल्द २ के बाब "गीबत की तबाह कारियां" सफ़हा
३०१ पर हदीसे पाक नकल इरमाते हैं के रसूले अकरम, नूरे
मुजस्सम, शाहे बनी आदम, नबिय्ये मुह्तशम, शाफ़ै अउमम
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने मुअज़्ज़म है "जिस ने मुउ
पर सो भरतबा दुइदे पाक पढा अल्लाह तआला उस की दोनों
आंभों के दरमियान लिख देता है के येह निफ़ाक और जहन्नम
की आग से आजाद है और उसे बरोजे कियामत शु-हदा के
साथ रभेगा."

(مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٥٣ حديث ١٧٢٩٨)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो! नेकी की दा'वत अेक औसा
अजीमुशान काम है के जिस के लिये अल्लाह तबा-२-क व तआला
मुप्तलिफ़ अदवार में मुप्तलिफ़ अम्बियाअे किराम व रसूले ईज़ाम
عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ को मबुसि इरमाता रहा. हत्ता के भा-तमुननबिय्यीन,

साहिबे कुरआने मुबीन, महुबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को मब्उिस इरमाया और आप पर सिख्लिलअे नुबुवत अत्म इरमा दिया. आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की उम्मत के बा'द येह जिम्मादारी आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की उम्मत बिल फुसूस उ-लमाअे किराम के उवाले कर दी गई. जैसा के सदरुल अफ़ाजिल उजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुदीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي अजाईनुल ईरफ़ान में इरमाते हैं “उजरते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के उमाने से उजरते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام तक मु-तवातिर अम्बिया आते रहे उन की ता'दाद यार उजार बयान की गई है येह सभ उजरात शरीअते मू-सवी के मुहाफ़िज और उस के अहकाम जारी करने वाले थे यूंके आ-तमुल अम्बिया के बा'द नुबुवत किसी को नहीं मिल सकती ईस लिये शरीअते मुहम्मदिय्यह की छिफ़ाजत व ईशाअत की अिदमत रब्बानी उ-लमा और मुजद्विदीने मिल्लत को अता हुई.”

(अजाईनुल ईरफ़ान, पारह : 1, सू-रतुल अ-करह, आयत : 87, सफ़हा : 24)

नेकी की दा'वत देने वालों की काम्याबी की उमानत तो फुद कुरआन ने दी है जैसा के पारह 4 सू-रअे आले ईमरान आयत 104 में ईशाद होता है :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
 الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ

તર-જ-મએ કન્ઝુલ ઈમાન : ઓર તુમ
 મેં એક ગુરોહ ઓસા હોના યાહિયે કે
 ભલાઈ કી તરફ બુલાએં ઓર અચ્છી
 બાત કા હુકમ દેં ઓર બુરી સે મન્અ
 કરેં ઓર યેહી લોગ મુરાદ કો પહોંચે.

મુફ્સિસે શહીર હકીમુલ ઉમ્મત હઝરતે મુફ્તી અહમદ
 યાર ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن આયત કે તહ્ત “નૂરુલ
 ઈરફાન” મેં તહરીર ફરમાતે હેં : ઈસ સે મા’લૂમ હુવા કે
 તબ્લીગે દીન કરને વાલા આલિમ બહુત કામ્યાબ હૈ. (નૂરુલ
 ઈરફાન, સફહા : 99, મલૂઆ પીરભાઈ કમ્પની મર્કઝુલ ઓલિયા લાહોર)

હઝરતે માલિક બિન અનસ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ને ઈશાદ
 ફરમાયા : મુજે યેહ ખબર પહોંચી હૈ કે કિયામત કે દિન
 ઉ-લમા عَلَيْهِمُ السَّلَام સે અમ્બિયા عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام કી તરહ
 તબ્લીગે દીન કે બારે મેં પૂછા જાએગા.

(حلیة الاولیاء حدیث ۸۸ ۶۹ ج ۶ ص ۴۸ دارالکتب العلمیة بیروت)

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! અગર હમ તારીખે ઈસ્લામ
 કી વરક ગદાની કરેં તો હમ પર યેહ બાત રોજે રોશન કી તરહ
 ઈયાં હો જાતી હૈ કે હમારે ઉ-લમાએ કિરામ عَلَيْهِمُ السَّلَام ને હર
 દૌર મેં એહયાએ સુન્નત વ નેકી કી દા’વત કે ઈસ ફરીજે કો
 ખૂબ સર અન્જામ દિયા. માઝી કે અવરાક પર અગર હમ
 નઝર કરેં તો હર દૌર મેં ઉ-લમાએ ઈસ્લામ ચાંદ સિતારોં કી

मानिन्द यमकते नजर आते हैं. कहीं एमामे आ'उम
 عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ एल्मे दीन की रा'नाएयां बिभेरते हैं तो कहीं
 गौसे पाक عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الرَّزَّاقِ नूरे एल्मे से कुलूब को मुनव्वर करते
 हैं. कहीं एमामे गजाली اللَّهِ الْوَالِي تल्कीने उम्मते मुस्लिमा
 में मसइफ़ हैं तो कहीं एमाम अहमद रजा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن
 लोगों के दिलों में एशके मुस्तफ़ा की शम्में जलाते हैं. अल गरज
 एन मुकदस हस्तियों ने तकरीर, तस्नीफ़, तहरीर, तदरीस,
 नेकी की दा'वत वगैरा के जरीअे अपनी अपनी जिम्मादारी
 को पूब निभाया. आज भी उ-लमाअे किराम كَرِيمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى नेकी
 की दा'वत के एस इरीजे को बपूबी सर अन्जाम दे रहे हैं.
 एन्ही उ-लमा में शैअे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये
 दा'वते इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाव
 मुहम्मद एल्य़ास अत्तार कादिरِي دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ हैं. आप
 دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ने तहरीर व तकरीर के जरीअे नेकी की दा'वत
 को पूब आम किया जिस के नतीजे में लाभों लोग जुर्म व
 एस्यां की दुन्या को छोड कर कुरआनो सुन्नत की ता'लीमात के
 पाबन्द बन गअे. आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ने जहां बयानात के
 जरीअे नेकी की दा'वत को आम किया वहीं आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ
 ने तहरीर के जरीअे भी नेकी की दा'वत के उंके बजअे यूं तो
 आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की तालीफ़ात व तस्नीफ़ात काफ़ी हैं. लेकिन
 एन में "इंजाने सुन्नत" को अेक एम्तियाजी हैसियत हासिल

है. ईसी किताब से दुन्या भर की बे शुमार मसाजिद, घरों, बाजारों और दीगर मकामात में रोजाना बे शुमार ईस्लामी भाई दर्स दे कर नेकी की दा'वत के पैगाम को आम करते हैं. ईस का मुता-लआ कर के ईल्मे दीन सीपने और ईस की ब-र-कतें लूटने वालों की ता'दाद तो बहुत जियादा है. मुल्क व बैरुने मुल्क से बे शुमार ईस्लामी भाई वक्तन इ वक्तन "ईजाने सुन्नत" का मुता-लआ करने की ब-र-कत से अपने दिल में बरपा होने वाले म-दनी ईन्किलाब की म-दनी बहारें तहरीरी सूरत में भेजते रहते हैं. दा'वते ईस्लामी की मजलिस अल मदीनतुल ईल्मिय्या ईजाने सुन्नत की इन म-दनी बहारों की पहली किस्त "आंभों का तारा" के नाम से पेश करने की सआदत हासिल कर रही है.

अल्वाइ तआला हमें "अपनी और सारी दुन्या के लोगों की ईस्लाह की कोशिश" करने के लिये म-दनी ईन्आमात पर अमल और म-दनी काफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौईक अता इरमाअे और दा'वते ईस्लामी की तमाम मजलिस ब शुमूल मजलिसे अल मदीनतुल ईल्मिय्या को दीन पय्यीसवीं रात छब्बीसवीं तरक्की अता इरमाअे.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

शो'बअे अभीरे अडले सुन्नत

मजलिसे अल मदीनतुल ईल्मिय्या (दा'वते ईस्लामी)

10 जुमादल उला सि. 1431 डि., 25 अप्रिल सि. 2010 ई.

﴿1﴾ सआदतों की मे'राज

पाक पतन (पंजाब, पाकिस्तान) के एक ईस्लामी त्वाँह के बयान का फुलासा है : मेरी बढ किस्मती के बयपन ही से मुझे बुरी सोडभत मुयस्सर आँ, बढ मजडभों के साथ न सिर्फ मेरे तअल्लुकात उस्तुवार थे बढके मेरी पोजीशन निडायत ही मुस्तडकम थी. वोड यूं के उन्डी के मद्रसे से डिईजे कुरआन की तकमील के बा'द अक साल तक मुदरिस की हैसियत से कुरआने पाक की ता'लीम देता रडा नीज बढ मजडभों की अक सियासी तन्जीम में तडसील सत्ड पर जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से तन्जीमी काम त्मी करता रडा येडी वजड थी के अडले सुन्नत से बुज्ज व अदावत और ँन से बिला वजड लडाँ जगडा मोल देता था. बढ अकी-दगी के साथ साथ में बढ आ'माली का शिकार त्मी था डिईमें डिरामे देभने और गाने बाजे सुनने में कोँ नंगो आर (शर्म व गैरत) मडसूस न करता था. बढ अकी-दगी की आलू-दगियों से पाकीजगी का जरीआ कुँ यूं मुयस्सर आया के अक भरतबा हुस्ने ँत्तिङाक से मुजे शैभे तरीकत, अभीरे अडले सुन्नत, बानिये द्वा'वते ईस्लामी डजरत अद्लामा मौलाना अबू बिलाल मुडम्मद ँल्यास अत्तार कादिरि رحمۃ اللہ علیہ की तालीङ "ईँजाने सुन्नत" पढने का मौकअ मिला जब में ने उस का मुता-लआ किया तो رحمۃ اللہ علیہ अक वलिये कामिल के पुर तासीर और मडभत त्भरे अद्लाने मेरे

દિલ મેં તાસીર કા તીર બન કર પૈવસ્ત હોતે ચલે ગએ ઔર ઈશકે મુસ્તફા કી શમ્અ સે મેરે દિલ કા હર તારીક ગોશા મુનવ્વર હો ગયા મુઝ પર મઝહબે અહલે સુન્નત કી હક્કાનિયત વાઝેહ હો ગઈ મેં બદ મઝહબોં કી સોહબત છોડ કર તૌબા કર કે દા'વતે ઈસ્લામી કે મહકે મહકે મુશકબાર મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો ગયા. મેં અમીરે અહલે સુન્નત دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ કે ઝરીએ સિલ્સિલએ આલિયા કાદિરિય્યા ર-ઝવિય્યા અત્તારિય્યા મેં બેઅત ભી હો ગયા. إِنَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ઈસ વાબસ્તગી કે બા'દ મેરે નસીબ કો ચાર ચાંદ લગ ગએ, એક રાત મેં સોયા તો મેરે ખ્વાબ મેં સરવરે કાએનાત, સાહિબો મો'જિઝાત صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ તશરીફ લાએ, મેં ને હુઝૂર ખૈરુલ અનામ કે દીદાર કે જામ ભર ભર કે પિયે ઔર અપની આંખોં કી પ્યાસ બુઝાઈ. મેરી સઆદત કી મે'રાજ કે મેં ને આપ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કી દસ્ત બોસી કા શરફ ભી પાયા. અબ મેરે ઘર કે તમામ અફરાદ અમીરે અહલે સુન્નત دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ કે મુરીદ હો ચુકે હેં. અલ્લાહ عَزَّ وَجَلَّ કી અમીરે અહલે સુન્નત પર રહમત હો ઔર ઈન કે સદકે હમારી મઙ્ગિરત હો

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(2) આંખોં કા તારા

ઝિયાકોટ (સિયાલ કોટ, પંજાબ) કે એક ઈસ્લામી ભાઈ

के बयान का जुलासा है : बयान ही से मैं वालिदैन और अहले पाना की आंभों का तारा और उन का छन्तिछाँह लाउला और प्यारा था. उन के बे जा लाउ प्यार का नतीजा येह निकला के ईस कदर जुदसर हो गया के हर छोटे बडे से बढ अज्वाकी करता, यूं मैं दिन ब दिन बिगडता गया. पढाई से मेरी दिलयस्पी अत्म हो गई और मैं ला या'नी (हुजूल) कामों में मशगूल हो गया. फिल्में डिरामों में हयासोज छिक्किया व झिक्किया मनाजिर ने मेरे किरदार और अज्वाकियात को मु-तअस्सिर कर दिया था. जुलन्द आवाज में म्यूजिक सुनता और वोह मूसीकी जो दर लकीकत जिस्म व जां के लिये जहरे कातिल और बाईसे अजाबे आभिरत है ۞۞۞ उसे इह की गिजा समजता था, छलावा अजी सोहबते बढ ने आ-तशे ईस्यां (गुनाहों की आग) पर तेल छिउकने का काम किया घर वालों ने लाज समजाया मगर मुज पर उन की कोई पन्धो नसीहत कारगर न हुई और मैं जूं का तूं अइआले शनीआ व कबीला (बुरे कामों) का ईरतिकाब करता रहा. जब ली कोई नई झिल्म आती उसे देखने सिनेमा घर पछोंय जाता और हयासोज मनाजिर देख कर अपनी आंभों को जहन्नम की आग से पुर करने का सामान करता. मुप्तसर येह के मैं सर ता पा गुनाहों के समुन्दर में मुस्तगरक था मगर अद्लाह ۞۞फ़ के करम से मेरी किस्मत ने या-वरी की और मुजे दा'वते ईस्लामी का पाकीजा माडोल

मुयस्सर आ गया. हुवा कुछ यूं के अेक रोज मेरे बडे ल्माईजान अेक किताब बनाम “इैजाने सुन्नत” ले कर घर लौटे, टाईटल पेज की कशिश ही कुछ अैसी थी के मेरी तवज्जोह उस की जानिब मब्जूल हो गई युनान्हे में ने किताब उठा कर पढना शुर्अ कर दी, जैसे जैसे में पढता गया म-रजे ईस्यां (गुनाहों की बीमारी) का मदावा होता गया, अेक वलिय्ये कामिल की तहरीर ने मेरे अन्दर ईन्किलाब बरपा कर दिया मुजे अपने अफ्लाक व किरदार को निभारने का जेहन मिला. बिल आभिर में ने अपनी गुनाहों लरी जिन्दगी से तौबा की और जुद को म-दनी माहोल में ढाल लिया. ﷺ अब हमारा पूरा पानदान दा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल से वाबस्ता है और ता दमे तहरीर में अलाका मुशा-वरत के फादिम (निगरान) की हैसियत से दा'वते ईस्लामी के म-दनी कामों की धूमें मयाने में मस्रूके अमल हूं.

अल्लाह ﷻ की अभीरे अहले सुन्नत पर रडमत हो और ईन के सदके हमारी मगि़रत हो

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(3) दिल का मैल दूर हो गया

कर्नाटक (हिन्द) के मुकीम ईस्लामी ल्माई के तहरीरी बयान का लुब्बे लुबाब पेशे फिदमत है : येह उन दिनों की बात है के जब हम दा'वते ईस्लामी के तहूत होने वाले

“તરબિય્યતી કોર્સ” મેં સુન્નતોં કી તરબિય્યત હાસિલ કર રહે થે “અલાકાઈ દૌરા બરાએ નેકી કી દા’વત” કે સિલ્સિલે મેં એક મસ્જિદ જાના હુવા, સુન્નતોં ભરે બયાન કે બા’દ ઈન્ફિરાદી કોશિશ કા સિલ્સિલા શુરૂઅ હુવા તો મેરી મુલાકાત એક ઐસે નૌ જવાન સે હુઈ જો અકાઈદે અહલે સુન્નત કી હક્કાનિય્યત કે મુન્તઅલ્લિક તરદુદ કા શિકાર થા. ઉસ નૌ જવાન ને હમેં અપને ઘર ચલને કી દા’વત પેશ કી તો હમ ઉસ કી દા’વત પર લબ્બૈક કહતે હુએ ઉસ કે ઘર પહોંચે વહાં યેહ દેખ કર બડા સદમા હુવા કે ઉસ કે પાસ બદ મઝહબોં કી ભી કઈ કિતાબે થીં મેરે દિલ મેં ઉસ કે લિયે કુઢન પૈદા હુઈ, અલ્લાહ ﷻ પર તવક્કુલ કરતે હુએ મેં ને દિલ મેં યેહ નિય્યત કી કે اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَعِيْنُكَ اપને ઈસ ઈસ્લામી ભાઈ કો બદ મઝહબોં કે ચુંગલ સે આઝાદ કરાઉંગા ચુનાન્ચે મેં ને ઉસ સે પૂછા કયા આપ કે પાસ ફૈઝાને સુન્નત હૈ ? તો ઉન્હોં ને નફી મેં જવાબ દિયા. ઈસ પર મેં ને “ફૈઝાને સુન્નત” કા ઈજમાલી તઆરુફ પેશ કિયા કે યેહ એક વલિય્યે કામિલ કી તાલીફ હૈ જો કે દા’વતે ઈસ્લામી કે ઈશાઅતી ઈદારે “મક-ત-બતુલ મદીના” સે હદિય્યતન હાસિલ કી જા સકતી હૈ લિહાઝા આપ ઝરૂર ઈસ કા મુતા-લઆ ફરમાએં, ઉસ કે હામી ભરને પર મેં ને ઉસે ચન્દ રસાઈલે અત્તારિય્યા તોહફે મેં દિયે ઔર ફિર હમ ઉસ કે ઘર સે રુખ્સત હો ગએ. કાફી અર્સે બા’દ હુસ્ને ઈત્તિફાક સે ઉસ નૌ જવાન સે મુલાકાત

हुँ तो हस्ने साबिक वोड झिर मुजे अपने घर ले गया, अब की बार मैं ने उस के कमरे में “झैजाने सुन्नत” रभी देभी उस ने बताया के आप के तरगीब दिलाने पर मैं ने येड किताब खरीदी है और الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ इस का मुता-लआ करने की सआदत भी हासिल कर रहा हूँ, येड सुन कर मेरा दिल भाग भाग हो गया. “झैजाने सुन्नत” के मुता-लआ की ब-र-कत से अकाईदे अडले सुन्नत के मु-तअद्लिक उस के दिल में जो मैल था न सिर्फ़ वोड दूर हो गया बल्के उस के दिल में शैषे तरीकत, अमीरे अडले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ की अकीदत औसी घर कर गई के वोड अमीरे अडले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ का मुरीद हो कर नमाज रोजे का पाबन्द बन गया.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

«4» मेरी तिशनगी दूर हो गई

सादिकआबाद (पंजाब, पाकिस्तान) के अक ईस्लामी भाई के बयान का लुब्बे लुबाब है : बयान ही से मुजे येड शौक था के मैं अपने प्यारे नबी, मक्की म-दनी وَاللهُ وَوَسَلَّمَ की ढेरों सुन्नतें सीपूं. इस मुकदस शौक की तकमील के लिये मैं किसी औसी किताब की तलाश में था जिस से मेरी तिशनगी दूर हो सके. अक मरतबा अक मुअम्मर (बडी उम्र वाले) ईस्लामी भाई ने मेरे सामने हसीन पैराये में “झैजाने सुन्नत” नामी किताब का जिक्र किया जिस से मुजे उस के मुता-लआ का ईश्तियाक

હુવા તલાશે બિસ્વાર કે બા'દ બિલ આખિર મુઝે યેહ કિતાબ દસ્ત-યાબ હો હી ગઈ, જબ ઈસ કા મુતા-લઆ કિયા તો યેહ જાન કર મેરી ખુશી વ મુસરત કી ઈન્તિહા ન રહી કે ઈસ કિતાબ મેં ખોંકે ખુદા, ઈશકે મુસ્તફા કે સાથ સાથ ઢેરોં સુન્નતોં કા ઝખીરા મૌજૂદ થા મેં વક્તન ફ વક્તન ઈસ કા મુતા-લઆ કરતા રહા ઓર જો કુછ ઉસ સે સીખતા ઉસ પર ન સિફ ખુદ અમલ કરતા બલકે દૂસરોં કો ભી સિખા કર ઉન્હેં શાહરાહે સુન્નત પર ગામઝન કરને કે લિયે કોશાં રહતા. કુછ અસે બા'દ મેરા બાબુલ મદીના (કરાચી) જાના હુવા તો સોચા ક્યૂં ન ઉસ અઝીમ હસ્તી કી ઝિયારત કી જાએ જિસ ને યેહ માયાનાઝ કિતાબ લિખી હૈ લિહાઝા દા'વતે ઈસ્લામી કે આલમી મ-દની મર્કઝ ફેઝાને મદીના પહોંચ કર શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત دائم برکاتہم العالیہ કે દીદાર સે ફેઝયાબ હુવા ઓર આપ કી ઝિયારત કી બ-ર-કત સે સર પર સબઝ સબઝ ઈમામા શરીફ કા તાજ ભી સજા લિયા. એક રાત સોચા તો ખ્વાબ મેં ક્યા દેખતા હૂં કે વાલિદે મર્હૂમ એક નહર કે કનારે ટહલ રહે થે મુઝે દેખ કર યૂં ગોયા હુએ “બેટા મુઝે તેરા કામ બહુત પસન્દ હૈ” ઈસ મુબારક ખ્વાબ કી બદૌલત મુઝે ઈસ મ-દની માહોલ મેં મઝીદ ઈસ્તિકામત મિલી ઓર અમલ કા જઝબા પૈદા હો ગયા તા દમે તહરીર મેં ઝૈલી મુશા-વરત કે ખાદિમ (નિગરાન) કી હૈસિયત સે મ-દની કામોં મેં મસરૂફ હૂં.

અલ્લાહ ેઝ્જલ્ ેઝ્જલ્ કી અમીરે અહલે સુન્નત પર રહમત હો ઓર ઇન
કે સદકે હમારી મગ્ફિરત હો

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

﴿5﴾ ઇસ્લામી ઝિન્દગી કી રાહનુમા તહરીર

બાબુલ મદીના (કરાચી) કે મુકીમ એક ઇસ્લામી ભાઈ
ને એક મ-દની બહાર બયાન કી જિસ કા ખુલાસા પેશે ખિદમત
હે : સિ. 1410 હિ. બ મુતાબિક સિ. 1990 ઇ. કી બાત હે કે
મેં મર્કઝુલ ઓલિયા (લાહોર) મેં મુલા-ઝમત કરતા થા. એક
રોઝ વહાં કામ કે સિલ્સિલે મેં એક નએ ઇસ્લામી ભાઈ આએ
જો દા'વતે ઇસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા થે. એક
બાર મેં ને ઉન સે કહા કે કિસી એસી કિતાબ કી તરફ મેરી
રહનુમાઈ ફરમાએ જિસે પઢ કર ઇસ્લામી તર્ઝ પર ઝિન્દગી
ગુઝારી જા સકે. ઉન્હોં ને કે કહા આપ દા'વતે ઇસ્લામી કે
ઇશાઅતી ઇદારે મક-ત-બતુલ મદીના સે “ફેઝાને સુન્નત”
ખરીદ ફરમા લીજિયે, બહુત અચ્છી કિતાબ હે. ઝિન્દગી કા
પહિયા ઇસી તેઝ રફતારી સે ધૂમતા રહા ગર્દિશે લેલો નહાર
સે બે ખબર મેં મા'મૂલ કે મુતાબિક ઝિન્દગી ગુઝારતા રહા
ઓર દુન્યાવી મસરૂફિયત કી વજહ સે વોહ કિતાબ ન ખરીદ
સકા, કુછ અર્સે બા'દ ખુદા કા કરના એસા હુવા કે મેં મુસ્તકિલ
તૌર પર બાબુલ મદીના (કરાચી) શિફ્ટ હો ગયા. એક રોઝ
નમાઝે મગરિબ કી અદાએગી કે લિયે એક મસ્જિદ મેં ગયા તો

नमाज अदा करने के बाद मैं ने देखा के सईद विभास जैसे तन किये सर पर सज्ज सज्ज हमामा शरीफ का ताज सजाये अक इस्लामी भाई दर्स दे रहे थे और कई इस्लामी भाई उन के ईद गिद निहायत मुनज़्ज़म अन्दाज में बैठे इन्तिहाई यक्सूई के साथ दर्स सुनने में मस्रूफ थे. मैं बहुत मु-तअस्सिर हुवा और अदब से सर जुकाये मैं त्मी उस दर्स में बैठ गया. जब मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी जिस से वोह इस्लामी भाई दर्स दे रहे थे तो उस पर “इंजाने सुन्नत” लिखा था जिसे देख कर मेरा जेहन माजी के घुंढलकों में जो गया और मेरे जेहन के निहां पानों में येह बात इयां हो गई के मर्कज़ुल औलिया (लाहोर) में जिस इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात हुई थी उन्हों ने मुझे इसी किताब को परीदने का मशवरा दिया था. दर्स के बाद मैं ने इस्लामी भाईयों से मुलाकात की और उन से इंजाने सुन्नत मुता-लआ करने के लिये ले ली. इस ખૂબ सूरत तहरीर के हर अक पैराये से वाकिअतन सुन्नतों का इंजान जलक रहा था, अन्दाजे तहरीर निहायत सादा और आम इहम के पढने वाला बहुरे अल्फ़ाज में गोताउन हो कर मआनी के तंवर में इंसे बिगैर निहायत आसानी से मकसूद के मोतियों तक रसाई पा सकता है. इस किताब में प्यारे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नतों पर अमल करने की और अहकामे इलाहियह की बजा आ-वरी की तरगीब

ईस कदर प्यारे अन्दाज़ में दी गई थी के **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ**. ईन सब चीजों ने मेरे जेहन पर इन्तिहाई गहरे नुक़्श मुरतब किये, रफ़ता रफ़ता मैं द्वा'वते ईस्लामी के पाकीज़ा माडोल से वाबस्ता हो गया और नेकियों के लिये क़मर बस्ता हो गया. नीज़ मेरे साथ साथ मेरे तीन भाई भी **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** द्वा'वते ईस्लामी के म-दनी माडोल से वाबस्ता हो चुके हैं.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

«6» मुराई कलियां भिल उठीं

अक ईस्लामी भाई के बयान का ખुलासा है : द्वा'वते ईस्लामी के म-दनी माडोल से वाबस्तगी से कबल मैं मुआ-शरे का अक बिगडा हुवा फ़ई था. सोडबते बद की बदौलत गुनाहों की ओडतात (कसरत) दिन ब दिन दिल् को सियाड से सियाड तर करती ज़ रही थी डायजेस्ट और नाविल पढने का शौक तो ईस उद तक था के कबी कबी रात भर डायजेस्ट पढता रहता था, फ़िल्में डिरामे देખने और गाने बाजे सुनने की ऐसी लत पडी हुई थी के ईन के बिगैर नींद ही न आती थी नीज़ ईन्टर नेट पर हयासोज़ मनाज़िर देખ देખ कर अपनी झूल सी जवानी को ખज़ां के तुन्द व तेज़ थपेडों के सिपुई करने में मसरूफ़ था. मेरी ईन उ-र-कतों और बद आ'मादियों की वजह से क़्या अडले खाना और क़्या रिश्तेदार सत्नी मुज़ से बेज़ार थे. मेरी बिगडी जिन्दगी कुछ ईस तरह संवरी के अक रात में

अपनी ખાલા કે ઘર વક્ત ગુઝારી કે લિયે કિસી નાવિલ કી તલાશ મેં થા કે અચાનક મેરી નઝર એક ઝખીમ કિતાબ પર પડી જિસ પર “ફેઝાને સુન્નત” લિખા હુવા થા મેં ને ઉસ કિતાબ કો ઉઠા કર પઢના શુરૂઅ કર દિયા. ખ્યારે આકા صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કી સુન્નતેં, બુઝુર્ગાને દીન رَحْمَتُ اللهِ الْكُبْرَى કે વાકિઆત ઓર દીગર અહમ વ દિલયસ્પ મા'લૂમાત કે સબબ મુઝે યેહ કિતાબ બહુત ભલી લગી લિહાઝા મેં ખાલા સે ઈજાઝત લે કર વોહ કિતાબ ઘર લે આયા ઓર ઉસ કો વક્તન ફ વક્તન પઢને લગા જિસ કી બ-ર-કત સે મેરે દિલ કી મુરઝાઈ કલિયાં ખિલ ઉઠીં ઓર મુઝ મેં મુસ્બત તબ્દીલિયાં રૂનુમા હોતી ગઈ. તમામ ગુનાહોં સે તૌબા કર કે સૌમો સલાત ઓર ઝિકો દુરૂદ કા પાબન્દ હો ગયા, સુન્નતોં ભરી ઈસ કિતાબ ને મેરી ઝિન્દગી કો ભી સુન્નતોં કે સાંચે મેં ઢાલ લિયા ઓર મુઝે સલાતો સુન્નત કી રાહ પર ગામઝન કર દિયા થા. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ઈસ વક્ત મેં અલાકાઈ સત્હ પર ખાદિમ (નિગરાન) કી હૈસિયત સે દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની કામોં કી ધૂમેં મયાને મેં મસરૂફ હૂં.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْكَرِيمِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِيَّ وَسَلَّمَ

﴿7﴾ ગાને સુનને સૈ તૌબા

ખાનપૂર (પંજાબ, પાકિસ્તાન) કે એક ઈસ્લામી ભાઈ કે બયાન કા લુબ્બે લુબાબ હૈ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ મેં ને એક મઝહબી ઘરાને મેં આંખ ખોલી, વાલિદે મોહતરમ નમાઝી હોને કે સાથ

साथ द्वा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल से वाबस्ता थे और द्वा'वते ईस्लामी के मुफ्तविङ्ग ईजतिमाआत में भी शिर्कत किया करते थे वालिद साहिब की शङ्कतों की वजह से हमें भी नमाज की अदाईगी की सआदत हासिल हो जाती थी मगर मेरी बह किस्मती के मैं उन से छुप कर इल्में देभता और गाने सुनता था. ओक रोज मैं ने घर में वालिद साहिब को शैषे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, भानिये द्वा'वते ईस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद ईलयास अतार कादिरि عَلَيْهِ السَّلَامُ की मायानाज तालीङ्ग "ईजाने सुन्नत" का मुता-लआ करते पाया. उन के मुता-लआ करने के बा'द मैं ने ईजाने सुन्नत को पढना शुरू किया तो मुझे ईस बात का अन्दाजा हुवा के अमीरे अहले सुन्नत عَلَيْهِ السَّلَامُ प्यारे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से किस कदर महब्बत करते हैं. मजीद मुता-लआ किया तो मेरी नजर से ऐसी रिवायात भी गुजरीं के जिन में बह निगाही के डोलनाक और दईनाक अजाबात का तजकिरा था उन रिवायात को पढ कर मेरा अंग अंग षौङ्गे षुदा से कांपने लगा और उसी दिन मैं ने अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ की बारगाह में गिडगिडा कर इल्में देभने और गाने सुनने से सखी तौबा कर ली और अब عَلَيْهِ السَّلَامُ मैं भी द्वा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल से वाबस्ता हो गया हूं और द्वा'वते ईस्लामी के सुन्नतों भरे ईजतिमाआत में शिर्कत को

અપના મા'મૂલ બના ચુકા હૂં.

અલ્લાહ عَزَّوَجَلَّ કી અમીરે અહલે સુન્નત પર રહમત હો ઔર ઈન
કે સદકે હમારી મગ્ફિરત હો

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

◀8▶ સોજે ઈશકે મુસ્તફા

બરનાલા (કશમીર) કે મુકીમ એક ઈસ્લામી ભાઈ કે તહરીરી બયાન કા લુબ્બે લુબાબ હૈ : તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા'વતે ઈસ્લામી કે પાકીઝા મ-દની માહોલ સે વાબસ્તગી સે કબ્લ બદ કિસ્મતી સે મેરા રુજહાન બદ મઝહબોં કી તરફ થા કે જિન્હોં ને મેરે અકાઈદે સહીહા મેં રખ્ના અન્દાઝિયાં કર કે મુજે રાહે રાસ્ત સે ભટકા દિયા થા, અકાઈદ કી ઈન ગુમ ગુશતા રાહોં મેં મુજે નિશાને મન્જિલ કુદુ યૂં મુયસ્સર આયા કે એક મરતબા મુજે દા'વતે ઈસ્લામી કે હફતાવાર સુન્નતોં ભરે ઈજતિમાઅ મેં શિર્કત કા ઈત્તિફાક હુવા તો ઈસ માહોલ મેં મુજે બહુત લુત્ફો સુરર મિલા ઈજતિમાઅ મેં એક મુબલ્લિગે દા'વતે ઈસ્લામી ને દૌરાને બયાન “ફૈઝાને સુન્નત” નામી કિતાબ કે હવાલે સે “જૂનાગઢ” કે એક આશિકે રસૂલ કા વાકિઆ સુનાયા, ઈશકો મહબ્બત કી વોહ દાસ્તાં મેરે જિસ્મો જાં મેં તાઝગી લે આઈ ક્યૂંકે લિખને વાલે ને વોહ વાકિઆ ઈસ કદર વાલિહાના અન્દાઝ મેં લિખા થા કે તહરીર કે મોતિયોં હી સે ઉન કે દિલ મેં છુપે ગૌહરે ઈશક

की अक्कासी होती थी और उन अल्फाज की तासीर थी के जिन्दगी में पहली बार मैं ने अपने अन्दर आ-तशे ईशके मुस्तफ़ा की तपश महसूस की थी मैं ने उस क़िताब के बारे में मा'लूमात हासिल कीं तो पता चला के वोह शैषे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, जानिये दा'वते ईस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद ईल्य़ास अत्तार कादिरि **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** की मायानाज व मशहूरे ज़माना तालीफ़ है, मेरे दिल में उन की गाँठाना अकीदत पैदा हो गई और मैं दा'वते ईस्लामी के हफ़तावार सुन्नतों भरे ईजतिमाअ में आने जाने लगा और यूँ मेरे दिल में बढ मज़हबों से नफ़रत और आशिकाने मुस्तफ़ा से महब्बत दिन ब दिन जोर पकडती गई और **أَحْسَنُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** मैं दा'वते ईस्लामी के मुश्क़बार म-दनी माहोल से वाबस्ता हो गया, मेरी ज़्वाबीदा किस्मत ज़ग उठी और मुझे हुसूले ईल्मे दीन की तौफ़ीक़ नसीब हो गई. आज़ बि इज़लिही तआला दर्से निज़ामी के तालिबे ईल्म की हैसियत से ईल्मे दीन के मोती युनने में मसड़फ़ हूँ और तन्ज़ीमी तौर पर डिवीज़न सत्ह पर मजलिसे ता'वीज़ाते अत्तारिय्या में अपनी बिदमात पेश कर के दा'वते ईस्लामी के म-दनी कामों की तरक्की के लिये कोशां हूँ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

﴿9﴾ तारीकी के बादल छट गये

ईस्लामआबाद (पंज़ाब, पाकिस्तान) के मुकीम अक

ईस्लामी भाई के बयान का लुब्धे लुभाब है : येह उन दिनों की बात है के जब मैं जियाकोट (सियाल कोट) में अेक एलेक्ट्रिक वर्कशोप पर काम सीजता था. मेरे साथ काम करने वालों में से दो अइराद जैसे भी थे जिन का तअल्लुक बढ मज्जलों से था. मैं रइता रइता उन के दामे इरेज में इंसता यला गया और अेक वक्त वोह आया के जब मेरे दुरुस्त अकाईद की इमारत बिल्कुल मिस्मार हो गई. जुदा का करना जैसे लुवा के अेक रात सोया लुवा था के किस्मत अंगडाई ले कर जग उठी, सर की आंभें तो क्या बन्द लुई दिल् की आंभें जुल गई, क्या देभता लूं के मेरे सामने भीठे भीठे आका, मदीने वाले मुस्तइ. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ जल्वा इरमा हूं मैं ने शरभते दीदार से अपनी आंभों की प्यास जुजाई कुछ देर भा'द आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तशरीफ ले गअे, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ इस जियारत की ब-र-कत से दिल् का जंग दूर हो गया आने वाले र-मजानुल मुबारक में मुजे सुन्नते अे'तिकाइ की सआदत डसिल लुई तो दौराने अे'तिकाइ इमाम साहिब ने अेक किताब बनाम "इंजाने सुन्नत" का तआरुइ पेश करते लुअे तमाम मो'तकिईन को इस के पढने की तरगीब दिलाई तो मेरे अन्दर भी जजबा बेदार लुवा और मैं ने उस किताब का मुता-लआ शुअअ कर दिया. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ इस की ब-र-कत से मेरे दिल् में ईशके रसूल का यराग रोशन हो गया और साथ ही साथ आकाअे दो

जहान, सरवरे जीशान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ढेरों सुन्नतें और दीनी मा'लूमात भी डासिल हुँ। मैं द्वा'वते ईस्लामी के म-दनी माडोल से वाबस्ता हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं ने अपने आप को सुन्नतों के साथे में ढाल लिया। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ता दमे तहरीर अलाकाई मुशा-वरत के ञादिम (निगरान) की हैसियत से म-दनी कामों में मस्रूफ़ हूँ.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
﴿10﴾ बे करारियों को करार आ गया

अटक (पंजाब, पाकिस्तान) के मुकीम अेक ईस्लामी भाई के बयान का ञुलासा है के : ञुरे माडोल और ञुरी सोडबत की वजह से मैं मुप्तलिफ़ डिस्म की ञुराईयों का आदी हो युका था और कस्ते ईस्यां की वजह से मेरा ढिल सियाह होता ञ रहा था. ञुराईयां ईस कदर बढ युकी थीं के अपने आप से नईरत होने लगी थी बसा अवकात तो अद्लाह عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में हुआ करता के या ईलाही عَزَّوَجَلَّ मुजे नेक माडोल अता इरमा आभिर कार अेक रोज़ मेरी मुराद बर आई, अद्लाह عَزَّوَجَلَّ का करना कुछ अैसा हुवा के मेरी मुलाकात द्वा'वते ईस्लामी के म-दनी माडोल से मुन्सलिक अेक ईस्लामी भाई से हुई तो मैं ने उन के सामने किसी ईस्लामी किताब के पढने का शौक आहिर किया तो उन्हों ने शैणे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, ञानिये द्वा'वते ईस्लामी हजरत अद्लामा मौलाना अबू

बिलाल मुहम्मद ँल्यास अतार कादररर डामَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ डी तालीक बनारड “कैजाने सुन्नत” पढने के लरये डी, ँस कडर डलरयसुष और डारुडडरती डलतारड डें ने अडनी कलनुडगी डें कडडी न पढी थी डें ने सरकुर और सरकुर 21 डलन के अनुडर उस डलतारड का अवुवल तार आडरर डुतार-लआ कर लरया ँस डी डुर असर तडररर ने डेरें डलल डी दुनुडर डदल डाली, डें ने डारुवते ँसुलरडी के डकुरतारवर सुनुनतों डरें ँकुरतलडरअ डें सरकुरत डी अडनार डारुडुल बनार लरया और कुर आडरसुतार आडरसुतार गुनारडों से डुरुडकरार नसुड डोने लगा डलल आडरर डें डारुवते ँसुलरडी के ड-दनी डारुडुल से वारडसुतार डो गडार. डेडुरे डर डरार आका صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ डी डडुडुडत डी नलशरनी डारुडी डुडर-रका और सर डर सडुड सडुड ँडरडर शररकुर का तारक सक गडार और डुडें नेकी डी डारुवत डी डुड डरडरने और सुनुनतें आड करने डी अकुरड सआदत डारसलल डो गडु. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ अब डें अडने डलल डें सुकुरन डी डौलत डरतार डुंडु. اَلدَّلَاةُ عَزَّوَجَلَّ डी अडररे अडले सुनुनत डर रडडत डो और ँन के सदके डडररी डकुररत डो

صَلُّوْا عَلَيَّ الْكَبِيْب! صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

(11) आंभें अशक डरसारी रडी

डुडकुरर गड (डंजड, डरकलसुतान) के अक ँसुलरडी डारुडु डे तडरररी डरडरन का डुलरसार डै : डें ँनुनलडारुड डद अडुलरक

व बट किरदार था, तर्क नमाज का आटी होने के साथ साथ मुप्तलिङ्ग गुनाहों के अमराज में गरिङ्गतार था. मजीद बर आं बट अकी-दगी का षौङ्ग ली दामन गीर था क्यूंके हमारे अलाके में बट मजहब बट अकी-दगी इलाने के लिये आया करते और मुसल्मानों के इमान छीनने के दर पै छोते, मेरी षुश नसीबी के अेक अजीज ने मुझे अेक किताब बनाम “इंजाने सुन्नत” दी और उस को पढने की ताकीद ली की. जब मैं ने उस किताब का मुता-लआ किया तो यकीन कीजिये के ईशको मजहबत से मा'भूर और पन्दो नसीहत से भरपूर उस तहरीर को पढ कर अशके नदामत का सैलाब पलकों का बन्द तोडता हुवा आंभों से ज़ारी हो गया और शैषे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इव्यास अतार कादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की मजहबत व अकीदत मेरे दिल में धर करती गई. ईस किताब से मा'लूम हो रहा था के अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ को मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिको मुप्तार, हम गरीबों के गम गुसार, शङ्गीअे रोजे शुमार, बि इजने परवर्द गार गैबों पर ખबरदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से ईस कदर वालिडाना प्यार है के ईस किताब में जहां ली म-दनी आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का जिके षैर आया निहायत अदब से जिके इरमाया मैं ईन से बेहद मु-तअस्सिर हुवा और ईन की

ઝિયારત કા શૌક મુઝે બાબુલ મદીના (કરાચી) ખીંચ લાયા, વહાં પહોંચ કર એક ઈસ્લામી ભાઈ કે હમરાહ મેં આલમી મ-દની મર્કઝ ફેઝાને મદીના આયા ઓર અમીરે અહલે સુન્નત ડામ્ત બ્રકાતુહુમ્ અલ્લાહી કી ઝિયારત કે સાથ સાથ મુલાકાત વ દસ્ત બોસી કા શરફ ભી પાયા ઓર આપ કે ઝરીએ સિલ્સિલાએ આલિયા કાદિરિયા ર-ઝવિયા અત્તારિયા મેં દાખિલ હો ગયા. ડામ્ત બ્રકાતુહુમ્ અલ્લાહી અમીરે અહલે સુન્નત ડામ્ત બ્રકાતુહુમ્ અલ્લાહી એક સચ્ચે આશિકે રસૂલ હી નહીં બલકે વલિય્હે કામિલ ભી હેં ક્યૂંકે યેહ એક વલિય્હે કામિલ હી કી તો નઝરે વિલાયત કા નતીજા હે કે મેરે જૈસા ગુનાહગાર ગુનાહોંં સે બેઝાર હો કર આજ સૌમો સલાત કા પાબન્દ બન ચુકા હૈ.

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ
(12) વાલિદૈન કા ઈતાઅત ગુઝાર બન ગયા

બરેલી શરીફ (હિન્દ) કે અલાકે શીશગઢ મેં મુકીમ એક ઈસ્લામી ભાઈ કે બયાન કા ખુલાસા પેશે ખિદમત હૈ : મેં ગુનાહોંં કી તારીક વાદિયોંં મેં ભટક રહા થા, નેકિયોંં સે કોસોંં દૂર, ગુનાહોંં સે ભરપૂર ઝિન્દગી ગુઝાર રહા થા. નમાઝોંં મેં સુસ્તી કરને, દાઢી મુંડવાને ઓર નિત નએ ફેશન અપનાને કે સાથ સાથ બહન ભાઈયોંં કો બિલા વજહ ડાંટ ડપટ ઓર વાલિદૈન સે તલખ કલામી ભી મેરે મા'મૂલાત કા હિસ્સા બન ચુકે થે. ઈલાવા અઝી ફિલ્મેં ડિરામે દેખને કા ભી શૌકીન થા, મેરી ખઝાંં રસીદા

जिन्दगी में बहार यूँ आँई के भुश किरमती से मुझे अभीरे अडले सुन्नत **صَلِّتْ بِرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ** की मायानाज तावीफ़ “कैजाने सुन्नत” का मुता-लआ करने का ईत्तिफ़ाक हुवा. ईस किताब की पुर तासीर तहरीर ने मेरे अन्दर गोया अक नई इह इंकु डी मैं अपने साबिका गुनाहों पर अशके नदामत बडा कर रब **عَزَّوَجَلَّ** की बारगाह में बफ़िश व मग़िरत का तालिब हुवा और आँन्दह गुनाह न करने का अज़्म बिल जज़्म किया. ता दमे तहरीर **حَمْدُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** कैजाने सुन्नत की ब-र-कत से न सिर्फ़ नमाजों की पाबन्दी नसीब हो गई है बल्के मैं ने येदरे पर दाढी शरीफ़ सजा ली और इल्मों डिरामों की नुडूसत से भी नजात मिल गई नीज बहन त्वाँयों के साथ शरफ़कत का बरताव करने वाला और वालिदैन का मुतीअ व इरमां बरदार बन गया हूँ. अद्लाह **عَزَّوَجَلَّ** की अभीरे अडले सुन्नत पर रडमत हो और ईन के सदके डमारी मग़िरत हो

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
(13) बुगुज व अदावत की आग बुज गई

सफ़्बर (बाबुल इस्लाम, सिन्ध) के मुकीम अक इस्लामी त्वाँई के तहरीरी बयान का भुलासा है : सफ़्बर सफ़्बर ईमामे वालों को देष कर न जाने क्यूं बुगुजो डसद की अक आग मेरे सीने में त्पडक उठती और मैं उन के करीब न जाता. इर अक दिन वोड आया के मैं भुद ईसी म-दनी माडोल का हो कर रड गया, मेरी जिन्दगी में येड तब्दीली ईस तरड इनुमा हुई के

अक मरतबा मुजे “इंजाने सुन्नत” पढने का मौकअ मिला तो दौराने मुता-लआ इस किताब के अक बाब “इंजाने बिस्मिल्लाह” में जब मैं ने वोह हिकायत पढी जिस में इस बात का जिक्र था के “बिस्मिल्लाह” की अ-र-कत से अक लउकी की जान जाअेअ होने से अय गई तो मैं हैरान रह गया के अल्लाह عَلَّوَجَلَّ के नाम में इस कदर तासीर है मजीद इस किताब को जैसे जैसे पढता गया दा'वते इस्लामी के म-दनी माहोल की महब्बत मेरे दिल में पैदा होती गई और नेकियों का जेहन बनता गया युनान्हे मैं दा'वते इस्लामी के म-दनी माहोल से वाअस्ता हो गया इसी म-दनी माहोल की अ-र-कत से मैं ने जामिअतुल मदीना में दर्स निजामी (आलिम कोर्स) के लिये दाखिला ले लिया. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ दर्स निजामी मुकम्मल करने के बा'द दा'वते इस्लामी के म-दनी कामों में मसइफ़ हूं. अल्लाह عَلَّوَجَلَّ की अमीरे अहले सुन्नत पर रइमत हो और इन के सदके हमारी मग़्फ़िरत हो

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
﴿14﴾ गुलशने उयात को शादाब कर दिया

गुलजारे तयबा (सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान) के मुकीम अक इस्लामी भाई के तहरीरी अयान का लुब्बे लुबाब है : इस म-दनी माहोल से कबल मैं अहुत ही बिगडे हुअे किरदार का मालिक था नीज कुरआनो सुन्नत पर अमल पैरा होने से यकसर महइम था जिन्दगी इन्ही पुरपेय और तारीक राहों में

भटकते हुआ गुजर रही थी, बिल आभिर येह बे राह-रवी और जुल्मत व तारीकी काफ़ूर हुँ और वोह ईस तरह के मुजे शैभे तरीकत, अभीरे अहले सुन्नत हजरत अब्दामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद ईव्यास अत्तार कादिरि र-उवी كَاتِبُهُمُ الْعَالِيَةُ की मायानाज तालीफ़ “इंजाने सुन्नत” हासिल हो गई, मैं वक्तन इ वक्तन ईस का मुता-लआ करता रहा और यूं दिन ब दिन मेरे अफ़्लाक में निभार आता गया और नेकियां करने का जजबा भी हिल में बेदार होता गया बिल आभिर मैं गुनाहों भरी जिन्दगी से ताईब हो कर दा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल से वाबस्ता हो गया और आज मुजे येह बताते हुआ ईन्तिहाई पुशी हो रही है के عَزَّ وَجَلَّ ता हमे तहरीर में दा'वते ईस्लामी के शो'बअे ता'वीजाते अत्तारिय्या में अपनी फ़िदमात पेश कर रहा हूँ.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

﴿15﴾ दाढी नहीं कटवाओगा

सम्भर (आबुल ईस्लाम, सिन्ध) के अेक ईस्लामी भाई अपनी जिन्दगी की अेक बहार बयान इरमाते हैं जिस का फ़ुलासा पेशे फ़िदमत है : मैं कुफ़ की तारीकियों में भटक रहा था, येह शा'बानुल मुअज़्जम सि. 1418 हि. ब मुताबिक़ दिसम्बर सि. 1997 ई. की बात है के फ़ुदाअे रहमान عَزَّ وَجَلَّ का अेहसाने अज़ीम के उस ने मुज गुनाहगार को दौलते ईमानी से सरफ़राज इरमाया के मैं ने अेक आलिमे दीन के हाथ पर

ईस्लाम कबूल किया. मगर दार्इरअे ईस्लाम में द्दामिल होने के बा'द में ईस शशोपन्ज में मुब्तला हो गया के ईस्लाम का द्दवेदार हर इिकर्क अपने आप को अहले उक गदन्तता है तो आधिर इन में से उक पर कौन है ? मेरी पुश नसीबी के मुजे द्दवते ईस्लामी का म-दनी माडोल मुयस्सर आ गया, ईस माडोल से वाअस्तगी के बा'द में ने अमीरे अहले सुन्नत उररत अद्लामा मौलाना अबू बिलाल मुडम्मद ईद्ल्यास अत्तार कादिरि २-उवी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की शोइरअे आइक तालीक "ईजाने सुन्नत" का मुता-लआ किया तो बे साप्ता मेरे द्दिल में अहले सुन्नत व जमाअत की महब्बत धर कर गई और मुज पर येड वाजेड हो गया के अहले सुन्नत ही अहले उक हैं. ईस किताब के पुर तासीर अद्लाज की अ-र-कत से में सुन्नतों का पाअन्द होता गया. में ने येइरे पर ध्यारे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नते मुआ-रका (दाढी शरीक) बी सज्ज ली और अइद किया के अब ज्वाड मेरी गरदन कट जाअे मगर मेरी दाढी नहीं कटेगी. أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ता दमे तइरीर में द्दवते ईस्लामी के जामिअतुल मदीना ईजाने मदीना (सप्पर) में नाजिमे जइवल की हैसियत से बिदमात सर अन्जाम दे रहा हूं दुआ है के अद्लाड عَزَّوَجَلَّ मुजे ईस माडोल में ईस्तिकामत अता इरमाअे. अद्लाड عَزَّوَجَلَّ की अमीरे अहले सुन्नत पर रडमत हो और इन के सदके हमारी मगिइरत हो

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया

આપ ભી મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો જાઘયે

ખરબૂઝે કો દેખ કર ખરબૂઝા રંગ પકડતા હૈ, તિલ કો ગુલાબ કે ફૂલ મેં રખ દો તો ઉસ કી સોહબત મેં રહ કર ગુલાબી હો જાતા હૈ. ઈસી તરહ તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો કર આશિકાને રસૂલ કી સોહબત મેં રહને વાલા અલ્લાહ ઔર ઉસ કે રસૂલ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કી મેહરબાની સે બે વક્ત પથર ભી અનમોલ હીરા બન જાતા, ખૂબ જગ-મગાતા ઔર ઐસી શાન સે પૈકે અજલ કો લખ્બૈક કહતા હૈ કે દેખને સુનને વાલા ઈસ પર રશક કરતા ઔર ઐસી હી મૌત કી આરઝૂ કરને લગતા હૈ. આપ ભી તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો જાઈયે. અપને શહર મેં હોને વાલે દા'વતે ઈસ્લામી કે હફતાવાર સુન્નતોં ભરે ઈજતિમાઅ મેં શિકત ઔર રાહે ખુદા મેં સફર કરને વાલે આશિકાને રસૂલ કે મ-દની કાફિલોં મેં સફર કીજિયે ઔર શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત كَمَا دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ કે અતા કર્દા મ-દની ઈઆમાત પર અમલ કીજિયે اِنَّ آدَاءَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ આપ કો દોનોં જહાં કી ઢેરોં ભલાઈયાં નસીબ હોંગી.

મકબૂલ જહાં ભર મેં હો દા'વતે ઈસ્લામી

સદકા તુઝે ઐ રબ્બે ગફકાર મદીને કા

ગૌર સે પઢ કર યેહ ફોર્મ પુર કર કે તફસીલ લિખ દીજિયે

જો ઈસ્લામી ભાઈ ફેઝાને સુન્નત યા અમીરે અહલે સુન્નત
 ﷺ કે કુતુબો રસાઈલ સુન યા પઢ કર, બયાન કી કેસિટ સુન
 કર યા હફતાવાર, સૂબાઈ વ બૈનલ અકવામી ઈજતિમાઆત મેં શિકત
 યા મ-દની કાફિલોં મેં સફર યા દા'વતે ઈસ્લામી કે કિસી ભી મ-દની કામ
 મેં શુમૂલિયત કી બ-ર-કત સે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હુએ, ઝિન્દગી
 મેં મ-દની ઈન્કિલાબ બરપા હુવા, નમાઝી બન ગએ, દાઢી, ઈમામા વગૈરા
 સજ ગયા, આપ કો યા કિસી અઝીઝ કો હૈરત અંગેઝ તૌર પર સિહ્હત
 મિલી, પરેશાની દૂર હુઈ, યા મરતે વક્ત કલિમએ તયિયા નસીબ હુવા યા
 અચ્છી હાલત મેં રૂહ કબ્ઝ હુઈ, મર્હૂમ કો અચ્છી હાલત મેં ખ્વાબ મેં દેખા,
 બિશારત વગૈરા હુઈ યા તા'વીઝાતે અત્તારિયા કે ઝરીએ આફાત વ
 બલિય્યાત સે નજાત મિલી હો તો હાથોં હાથ ઈસ ફોર્મ કો પુર કર દીજિયે
 ઔર એક સફહે પર વાકિએ કી તફસીલ લિખ કર ઈસ પતે પર ભિજવા કર
 એહસાન ફરમાઈયે “ફેઝાને મદીના, ત્રી કોનિયા બગીચે કે પાસ, મિરઝા
 પૂર, અહમદ આબાદ ગુજરાત. (શો'બએ અમીરે અહલે સુન્નત મજલિસે અલ
 મદીનતુલ ઈલ્મિયા)”

નામ મઅ વલ્દિયત :..... ઉમ્મ..... કિન સે
 મુરીદ યા તાલિબ હૈં..... ખત મિલને
 કા પતા..... ફોન નમ્બર (મઅ
 કોડ) :..... ઈ મેઈલ એડ્રેસ ઈન્કિલાબી
 કેસિટ યા રિસાલે કા નામ :..... સુનને, પઢને યા
 વાકિઆ રૂનુમા હોને કી તારીખ/મહીના/સાલ:..... કિતને દિન કે
 મ-દની કાફિલે મેં સફર કિયા : મૌજૂદા તન્ઝીમી
 ઝિમ્માદારી..... મુન્દરિજએ બાલા ઝરાએએ સે જો
 બ-ર-કતે હાસિલ હુઈ, ફુલાં ફુલાં બુરાઈ છૂટી વોહ તફસીલન ઔર પહલે કે
 અમલ કી કેફિયત (અગર ઈબ્રત કે લિયે લિખના ચાહૈ) મ-સલન ફેશન પરસ્તી,
 ડકેતી વગૈરા ઔર અમીરે અહલે સુન્નત ﷺ કી ઝાતે મુબા-રકા સે
 ઝાહિર હોને વાલી બ-રકાત વ કરામાત કે “ઈમાન અફરોઝ વાકિઆત” મકામ
 વ તારીખ કે સાથ એક સફહે પર તફસીલન તહરીર ફરમા દીજિયે.

મ-દની મશવરા

شَيْبَةَ تَرِيكَتِ، اَمْبِيْرَةَ اَحَدَلِے سُنْنَتِ لَدَارَتِے اَصْلَامَا
 مَوْلَانَا اَبُو بِلَالِ مَحْمُوْدِ عِلْيَاَسَا اَتَارِ كَاتِيْرِي ر-اَوِي
 دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَةِ دَوْرِے لَاتِيْر كِي وَوَلَدِ يَغَانِے رَوَاغَارِ اَحْسْتِي هُنَّ كِے جِيْنِ سِے
 ش-رَكِّے بَےاَتِ كِي ا-ر-كَتِ سِے لَآاِمْ مِوَسْلِمَانِ گُنااِمْ لَیْرِي لِيْنِدْگِي سِے
 تَااِثِ لَوِ كَرِ اَصْلَااُ رَحْمَانِ عَزَّوَجَلَّ كِے اَحْكَامِ اَوِيْرِ اُسِ كِے پْيَاْرِے لَیْبِے
 لَیْبِے اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي سُنْنَتِمْ كِے مُتَاَبِيَكِ پُورِ سُوْكُوْنِ لِيْنِدْگِي
 اَبَسَرِ كَرِ رَحِے هُنَّ. پَیْرِ پْوَاحِيِے مِوَسْلِمِ كِے مُكْدَسِ جِااِمْ كِے تِلْهْتِ لَمَارَا
 م-دنی مશવرا هُنَّ كِے اَگَرِ اَآِپِ اَبْیِ تَكِ كِیْسِي جَاْمِے شَرَااِثِ پِیْرِ سَااِیْبِ
 سِے بَےاَتِ ن_اِیْ لُحُاِے تَوِ شَيْبَةَ تَرِيكَتِ اَمْبِيْرَةَ اَحَدَلِے سُنْنَتِ الْعَالِيَةِ كِے
 كُيُوْلِ وَا-ر_كَاتِ سِے مُسْتَفِیْدِ لَوِنے كِے لِیِے اِثْنِ سِے بَےاَتِ لَوِ جَااِیْے. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 دُنْیَا وَآخِرَاتِ مِمْ كَامْبِيَاَبِي وَ سُوْرْ-رُحِ نَسِیْبِ لَوِگِي.

મુરીદ બનને કા તરીકા

अगर आप मुरीद बनना चाहते हैं, तो अपना और जिन को
 मुरीद या तालिब बनवाना चाहते हैं उन का नाम नीचे तरतीब वार मअ
 वलदिय्यत व उम्र लिख कर “इंजाने मदीना, त्री कोनिया बगीचे के पास, मिरजा
 पूर, अहमदआबाद गुजरात. (मजलिसे मक्तूबातो ता’वीजाते अतारिय्या)” के पते
 पर रवाना इरमा दें, तो اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَنْتَ لَی سِیْصِلِے كَاتِيْرِي ر-اَوِي
 अतारिय्या में दाखिल कर लिया जाओगा. (पता ईंग्रेजी के केपिटल डुइफ में लिखें)

E.Mail : attar@dawateislami.net

(1) नाम व पता बोल पेन से और बिदकुल साइ लिखें, गैर मशूर नाम या
 अड्काज पर लाजिमन अे’राब लगाअें. अगर तमाम नामों के लिये अेक ही
 पता काई लो तो दूसरा पता लिखने की हाजत नही. (2) अेड्रेस में महरम या
 सर परस्त का नाम जरूर लिखें (3) अलग अलग मक्तूबात मंगवाने के लिये
 जवाबी लिफाई साथ जरूर इरसाल इरमाअें.

नम्बर शुमार	नाम	मद/ औरत	बिन / बिन्ते	बाप का नाम	उम्र	मुकम्मल अेड्रेस

म-दनी मशवरा : ઈસ ફોર્મ કો મહફૂજ કર લેં ઔર ઈસ કી મઝીદ કોપિયાં કરવા લેં.

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા